



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

प्रधान कार्यालय - माण्डवी, बड़ौदा
Head Office - Mandvi, Baroda

शाखा
Branch **NIGDI, MAHARASHTRA**
Received With Thanks From

कोन्टेक्ट सेंटर के टोलफ्री फोन नं. Toll free Phone Numbers of Contact Centre: 1800 22 33 44, 1800 102 44 55
आवधिक जमा रसीद **TERM DEPOSIT RECEIPT**

परिपक्वता मूल्य टैक्स के अधीन
M.V. is subject to TDS

परिपक्वता मूल्य ₹
Maturity Value ₹ **6,10,296.00**

*M.V. is subject to TDS

ग्राहक सं. क्र.
Customer Ref. No.

जारी तारीख **1JH063688**

Issue Date
तारीख को **12-03-2019**

As of Date
देय तारीख **12-03-2019**

Due Date
जन्म तारीख (यदि नाबालक) **12-03-2022**

D.O.B. if Minor

खाता क्र.

A/c No. **45250300008273**

आवधिक जमा राशि के
As Term Deposit Under **RIRD** योजना अनुसार
Scheme

M/S SATCHITTANAND EDUCATION SOCIETY
EDUCATION OFFICER (PRIMARY) ZILHA PARISHAD,
PUNE

रुपये **Five lakh only.**
Rupees

रसीद क्रमांक Receipt No.	मूल्य तारीख Value Date	देय तारीख Due Date	अवधि Period	व्याज दर Rate of Interest	राशि ₹ Amount ₹
1963172 TDR/2017/MC	12-03-2019	12-03-2022	3-Yr0-Mt 0-Days	6.70	5,00,000.00

परिचालनीय अनुदेश यदि है
Operational Instructions, if any

लियन नोट करने की ता.
Lien Noted On

लियन रद्द करने की ता.
Lien Cancelled On

CHAIRMAN OR VICE-CHAIRMAN AND SECRETARY

Nominee Name:
नामिती रजिस्ट्रेशन क्र.

Nominee's Reg. No.

अहस्तान्तरनीय
NON-TRANSFERABLE

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा For BANK OF BARODA

वरिष्ठ प्रबंधक Senior Manager
हस्त. क्र. SIG. NO.

प्रबंधक Manager
हस्त. क्र. SIG. NO.

शते पिछले पृष्ठ पर देखें

SEE CONDITIONS OVERLEAF

नवीनीकरण का ब्यौरा Particulars of Renewals						
नवीनीकरण तारीख	राशि ₹	अवधि	व्याज दर	परिपक्वता मूल्य ₹	देय तारीख	प्रबंधक / व. प्रबंधक
Date of Renewal	Amount ₹	Period	Rate of Interest	Maturity Value ₹	Due Date	Manager / Senior Manager
12.03.22	6,10,296	12m	5.0	6,41,388	12.03.23	
12.3.24	6,81,582	12m	6.85	7,29,466	12.3.25	
12.3.25	7,24,677	12m	6.85	7,75,589	12.3.26	

शर्तें

- जमा राशि रसीदें परांकन द्वारा हस्तान्तरणीय नहीं हैं। प्राधिकार, पत्र सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित रसीदें द्वारा तृतीय पार्टी को भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- बैंक को सुरक्षित अभिरक्षामें रसीदें निः शुल्क रखी जा सकती हैं।
- जमा राशि का भुगतान प्राप्त करने या नवीनीकरण हेतु रसीद पर अंकित देय तारीख या उसके बाद रसीद प्रस्तुत करें।
- अवधि तथा जमा राशि के प्रकार एवं पार्टी के अनुदेशों के अनुसार मासिक, छमाही, या परिपक्वता पर सादे व्याज की अनुमति है। मासिक आय योजना पर व्याज नियमानुसार डिस्काउन्टेड किया जाता है।

- वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार जमा राशि के परिपक्वतापूर्व आहरण पर दंड लगाया जाएगा कृपया शाखा से पुष्टि प्राप्त करें।
- रुपये एक करोड़ एवं अधिक की आबंटित जमा राशि के पूर्व-भुगतान की अनुमति बैंक के विवेकाधिकार पर होगी।

स्वतः नवीनीकरण की शर्तें:

- 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए जारी जमा रसीदें यदि नियत तारीख पर अन्यथा अनुदेश प्राप्त न हुए हों तो जमा, रसीद वर्तमान व्याज दर से 1 वर्ष के लिए प्रवीकृत की जायेगी।
- 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जारी की गई जमा रसीदें यदि नियत तारीख पर अन्यथा अनुदेश न दिए गये हों तो जमा रसीद उस तारीख पर लागू व्याज दर से उतनी ही अवधि के लिए नवीकृत की जायेगी।

यदि आपकी सावधि जमा रसीद तीसरे पक्ष द्वारा संग्रहित की जाती है तो ऐसे मामलों में, कृपया अपनी सावधि

CONDITIONS

- Receipts not transferable by endorsement. Payments to third party must be sanctioned by a letter of authority accompanied by the Receipt duly discharged.
- Receipts can be kept in the Bank's safe custody free of charge.
- To receive payment or for renewal, please produce the Receipt on due date as indicated in the Receipt or thereafter.
- Simple Interest allowed monthly, half yearly or at maturity depends on period and type of deposit and party's instructions. Interest on monthly income plan is discounted as per rules. Interest on RIRD is compounded quarterly and paid at maturity only.
- Penalty will be levied on withdrawals as per guidelines. Please refer to the guidelines.
- Prepayment of Rs. One Crore or more is not allowed as per Automatic Facility.
- For Deposits of 1 year and above, interest will be paid on due date if not withdrawn.
- For Deposits of less than 1 year, interest will be paid on due date.

"In case of your FD receipt is collected through third party, please collect it from your base branch immediately by giving your credentials from your base branch immediately by giving



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

प्रधान कार्यालय - माण्डवी, बड़ौदा
Head Office - Mandvi, Baroda

शाखा
Branch

Received With Thanks From **VIDYANAND BHAV SATCHITANAND EDUCATION TRUSTS-
(PRIMARY) ZILHA PARISHAD, PUNE** **EDUCATION OFFICER**

Ten Lakh only.

रुपये
Rupees



से धन्यवाद सहित प्राप्त

ग्राहक सं. क्र. 27-04-2018
Customer Ref. No. 27-04-2018
जारी तारीख 27-04-2021
Issue Date
तारीख को 27-04-2021
As of Date
देय तारीख
Due Date
जन्म तारीख (यदि नाबालिग)
D.O.B. if Minor 45250300007243
खाता क्र. RIRD
A/c No.

आवधिक जमा राशि के योजना अनुसार
As Term Deposit Under Scheme

रसीद क्रमांक	मूल्य तारीख	देय तारीख	अवधि	व्याज दर	राशि ₹
Receipt No.	Value Date	Due Date	Period	Rate of Interest	Amount ₹
TDR/2016/NN					
0102424					

परिचालनीय **ALL JOINTLY OR SURVIVORS OR SURVIVOR**
Operational Instructions, if any

लिएन नोट करने की ता.
Lien Noted On

लिएन रद्द करने की ता.
Lien Cancelled On

नामिती रजिस्ट्रेशन क्रं
Nominee's Reg. No.

अहस्तान्तरनीय
NON-TRANSFERABLE

जहाँ पिछले पन्ना पर देखें SFF CONDITIONS OVERLEAF

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा For BANK OF BARODA

वरिष्ठ प्रबंधक Senior Manager

हस्त. क्रं. | SIG. NO.

प्रबंधक Manager

हस्त. क्रं. | SIG. NO.

नवीनीकरण का खाता Particulars of Renewals						
नवीनीकरण तारीख Date of Renewal	राशि ₹ Amount ₹	अवधि Period	अंश दर Rate of Interest	परिमत्ता मूल्य ₹ Maturity Value ₹	देय तारीख Due Date	प्रबंधक/व.प्रबंधक Manager / Senior Manager
27/04/21	1196315	12m	4.0	1256020	27.04.22	
27/04/22	124909	12m	5.00	1313586	27.04.23	
27/4/24	1388683	12m	6.85	1486085	27-4-25	
27/4/25	1476889	12m	6.85	1580128	27/4/26	

सहस्र

ENDORSEMENT

नमांकन (ओं) के हस्ताक्षर
Signature/s of Depositor/s

CONDITIONS

1. Receipts not transferable by endorsement. Payments to third party must be sanctioned by a letter of authority accompanied by the Receipt, duly discharged.
2. Receipts can be kept in the Bank's safe custody free of charge.
3. To receive payment or for renewal, please produce the Receipt on due date as indicated in the Receipt or thereafter.
4. Simple interest allowed monthly, half yearly or at maturity depends on period and type of deposit and party's instructions. Interest on monthly income plan is compounded quarterly and paid at maturity only.
5. Penalty will be charged on premature withdrawals of deposit as per extant guidelines. Please confirm from the branch.
6. Prepayment of term deposit for Rs. One Crore and above will be allowed as per discretion of the bank.
7. For Deposit receipt issued for 1 year and above-Deposit will be renewed for 1 year at the prevailing rate on due date if not instructed otherwise.
8. For Deposit receipt issued for less than 1 year. Deposit will be renewed for the same period with the interest rate applicable on due date, if not instructed otherwise.

"In case of your FD receipt is collected through third party, please ascertain its credentials from your base branch immediately by giving FD account number/details."